



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261905
CG-DL-E-25032025-261905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/ फाल्गुन 30, 1946

No. 194]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा.सं. 18-579/2000-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, ग्रेस स्कूल ऑफ नर्सिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 11, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा-521002 (आंध्र प्रदेश) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा आंध्र प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइव्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, 5वां ब्लॉक, भूतल, कमरा संख्या 157, आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलागपुडी, अमरावती-522503, आंध्र प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18-579/2000-आईएनसी (56127) दिनांक 03.05.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 03.05.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति ग्रेस स्कूल ऑफ नर्सिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 11, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा-521002 (आंध्र प्रदेश) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूँकि, ग्रेस स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी ग्रेस स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 07.12.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियाँ जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियाँ गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने में असमर्थ है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से ग्रेस स्कूल ऑफ नर्सिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 11, मछलीपट्टनम, जिला कृष्णा-521002 (आंध्र प्रदेश) से बी.एससी. नर्सिंग मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./1055/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F.No.18-579/2000 -INC: In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Grace School of Nursing** situated at **P Box No.11, Machilipatnam, Distt. Krishna, 521002 Andhra Pradesh** is recognized by State Government of Andhra Pradesh and Andhra Pradesh Nurses Registration Council to conduct B.Sc(N) Course.

Whereas, a notice no. 18-579/2000-INC (56127) dated **03/05/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Andhra Pradesh 5th Floor, Ground Floor, Room No. 157, A.P. Secretariat, Velegapudi, Amaravathi 522503, Andhra Pradesh was issued. Copy of the notice dated 03/05/2024 was also enclosed to **Grace School of Nursing** situated at **P Box No.11, Machilipatnam, Distt. Krishna, 521002 Andhra Pradesh** In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Grace School of Nursing**. Even the institution, **Grace School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 07/12/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run B.Sc. (N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 26/10/2024 any person holding a recognized qualification of **B.Sc(N) from Grace School of Nursing** situated at **P Box No.11, Machilipatnam, Distt. Krishna, 521002 Andhra Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Andhra Pradesh.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Extty./1066/2024-25]